

## प्रेस नोट

### दीव में हुए विकासीय कार्यों के संबन्ध में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

**दीव, दिनांक 11/05/2018** - आज पूर्वाह्न 10:00 बजे समाहर्तालय सभागार, दीव में समाहर्ता एवं जिलाधीश श्री हेमन्त कुमार की अध्यक्षता में दीव में हुए विकासीय कार्यों के संबन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई । दिनांक 09/11/2017 को आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर लिये निर्णयों पर की कार्रवाई एवं प्राप्त उपलब्धियों के बारे में समाहर्ता महोदय ने संबन्धित अधिकारियों से जानकारी ली । बैठक के दौरान पहले से जारी किये गए राशन कार्ड में से बोगस राशन कार्ड को निरस्त किये जाने के बारे में, पर्यटन विभाग द्वारा किये गए कार्यों, उप कारागार में वर्तमान रह रहे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई । साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा दिकरी विकास योजना, संजवनी योजना व आयुष्मान भारत के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के बारे में अवगत हुए । इस दौरान श्रम विभाग द्वारा जारी किये जा रहे श्रम कार्ड के बारे में एवं विद्यालयों में टूटे फर्नीचरों को निलाम करने के बारे में चर्चा हुई । इसके साथ ठोस कचरा प्रबन्धन, सूरत एवं वडौदा से आने वाली शैलानियों के बारे में चर्चा हुई, ताकि इनके लिए सी-प्लेन की सुविधा के बारे में विचार किया जा सके । दादरा एवं नगर हवेली में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी बावत स्टीकर और पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बधाई देने के बारे में चर्चा के साथ और अन्य विषय पर सविस्तार चर्चा हुई और बैठक को विराम दिया गया ।

इसके पहले उप समाहर्ता डॉ. अपूर्व शर्मा की अध्यक्षता में कर्मचारियों को ट्विटर के उपयोग किये जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया । बैठक में दीव स्थित सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख सहित अधीनस्थ कर्मचारी उपस्थित रहे ।